

मारपीट व हत्या के दो नफर वांछित अभियुक्त 02 अदद आलाकत्तल बांस के डण्डे के साथ
गिरफ्तार गोरखपुर

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व पुलिस उपाधीक्षक बांसगाव के कुशल मार्ग निर्देशन एवं श्री राजप्रकाश सिंह थानाध्यक्ष गगहा के नेतृत्व में उ0नि0 प्रधान यादव थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र शान्ति व्यवस्था व रोक थाम जूम जरायम व विवेचना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास आकर मिला और बताया कि ग्राम रकहट में जो घटना घटित हुई है उससे सम्बन्धित अभियुक्त गजपुर तिराहे पर मौजूद है। कही जाने के फिराक में है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकता है। कि मुखबीर की बात पर विश्वास करके क्षेत्र में मौजूद हे0का0संग्राम पासवान हे0का0 हसन नवाज को तलब कर साथ लेकर कर्मचारीगण को मुखबीर की बात से अवगत कराते हुये, मै उ0नि0 मय हमराह के प्रस्थान कर गजपुर तिराहे के पास पहुँचा कि मुखबीर कुछ दूरी पहले दोनो व्यक्तियों की तरह इशारा कर बताया कि साहब वही दोनो व्यक्ति है। कि हम पुलिस वाले उन दोनो व्यक्तियों की तरफ आगे बढ़े की हम पुलिस वालो को देखकर भागना चाहा कि हम पुलिस वाले उपरोक्त व्यक्तियों को घेर कर पकड़ लिये जिनका नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम 1.सतीष यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी ग्राम मरकड़ी थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर हाल मुकाम ग्राम रकहट थाना गगहा जनपद गोरखपुर दुसरे ने अपना नाम 2. हिमांशु यादव पुत्र अवधेश यादव निवासी ग्राम रकहट थाना गगहा गोरखपुर बताया इतमिनान हो जाने पर अभियुक्तगण को मु0अ0सं0 13/2021 धारा 147/148/323/504/506/302 भादवि थाना गगहा जनपद गोरखपुर के मुकदमें में वांछित अभियुक्त है अवगत कराते हुये हिरासत पुलिस में समय करीब 11.35 बजे लिया गया। जिन्हे जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1- सतीष यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासी ग्राम मरकड़ी थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर हाल मुकाम ग्राम रकहट थाना गगहा जनपद गोरखपुर यथा मु0अ0सं0 13/2021 धारा 147/148/323/504/506/302 भादवि
- 2- हिमांशु यादव पुत्र अवधेश यादव निवासी ग्राम रकहट थाना गगहा गोरखपुर मु0अ0सं0 13/2021 धारा 147/148/323/504/506/302 भादवि

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय

वहद गजपुर तिराहे के पास दिनांक 13.01.2021 व समय करीब 11.35 बजे

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण –

- (1) उ0नि0 प्रधान यादव थाना गगहा गोरखपुर
- (2) हे0का0 संग्राम पासवान थाना गगहा गोरखपुर
- (3) हे0का0 हसन नवाज थाना गगहा जनपद गोरखपुर